

भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ में 74वां स्थापना दिवस समारोह

मंडपम क्षेत्रीय केंद्र

मंडपम क्षेत्रीय केंद्र में भा कृ अनु प-केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान का 74वां स्थापना दिवस दिनांक 3 फरवरी, 2021 को मनाया गया। सम्मलेन कक्ष में आयोजित समारोह में, श्री के. मुरलीधरन, सदस्य, भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ संस्थान प्रबंधन समिति सदस्य मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हिन्दी दिवस के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये। समारोह में पीकोक नृत्य अकादमी, रामेश्वरम के छात्रों ने भरतनाट्यम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। डॉ. आर. जयकुमार, प्रधान वैज्ञानिक और प्रभारी अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया और डॉ. जी. तमिलमणी, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने धन्यवाद अदा किया।

भारतीय तट रक्षक स्टेशन, मंडपम और भारतीय नेवल स्टेशन, आइ एन एस परंदु, उचिपुली, रामनाथपुरम



मंडपम में स्थापना दिवस

जिला के कार्मिकों और परिवार के सदस्यों के लिए खुली सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने भा कृ अनु प-सी एम एफ आर आइ की सुविधाएं जैसे कि समुद्री रीफ जलजीवशाला, संग्रहालय, स्फुटनशाला, ब्रूड बैंक और समुद्री संवर्धन, वेलापवर्ती, तलमज्जी, क्रस्टेशियन, समुद्री जैवविविधता, मात्स्यिकी पर्यावरण और प्रबंधन एवं समाज आर्थिक मूल्यांकन और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण प्रभाग के वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों द्वारा प्रदर्शित स्टालों का दौरा किया।

मद्रास क्षेत्रीय स्टेशन

मद्रास क्षेत्रीय स्टेशन, चेन्नई में दिनांक 03.02.2021 को भा कृ अनु प- सी एम एफ आर आइ का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। भा कृ अनु प गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डॉ. आर. नारायणकुमार, प्रधान वैज्ञानिक और प्रभारी वैज्ञानिक ने सभा का स्वागत किया। डॉ. सी. शैलेन्द्र बाबु, आइ पी एस, पुलिस महानिदेशक, फयर और रेसक्यु सेवा, चेन्नई ने दीप प्रज्वलन करके समारोह का उद्घाटन किया और कार्मिकों का अभिसंबोधन किया। मुख्य अतिथि ने पिछले सात दशकों में सी एम एफ आर आइ द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं की सराहना की और समुद्री क्षेत्र में सी एम एफ आर आइ के अनुसंधान आगे बढ़ने की कामना की।

मुख्य अतिथि ने सभी प्रयोगशालाएं/मात्स्यिकी जैविकी प्रयोगशालाओं का दौरा किया जहां विभिन्न प्रजातियों के मछली/कवच मछली का प्रदर्शन किया है। मात्स्यिकी पर्यावरण, समुद्री जैवप्रौद्योगिकी (ऊतक संवर्धन), जैवविविधता और समुद्री संवर्धन गतिविधियों का प्रदर्शन एवं विवरण दिए गए। मुख्य

अतिथि को जलजीवशाला और संग्रहालय के समुद्री और मीठा पानी अलंकारी मछली/कवच मछली प्रजातियों का प्रदर्शन आकर्षित किया। उन्होंने मद्रास क्षेत्रीय स्टेशन की अनुसंधान गतिविधियों के डिजिटल

प्रदर्शन की सराहना की। समारोह की समापन सभा में डॉ. ए. मागरिट मुत्तु रत्तिनम, प्रधान वैज्ञानिक ने धन्यवाद अदा किया।



मुख्य अतिथि द्वारा स्थापना दिवस का उद्घाटन



मुख्य अतिथि मात्स्यिकी जैविकी प्रयोगशाला में